



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1085) पटना, बुधवार, 23 सितम्बर 2015

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2015

सं0 04/HFA-08/2015-4120—सबके लिए आवास (शहरी) योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के कडिका-16.5 में अंकित प्रावधान एवं विभागीय संकल्प सं0-3812 दिनांक 26.08.15 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्था बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को योजना का State level Nodal Agency (SLNA) नामित किया जाता है।

2. योजना के अधीन BUDA द्वारा निम्नांकित कार्य संपादित किये जायेंगे :-

- (I) शहरी स्थानीय निकायों/कार्यकारी एजेंसी से प्रोजेक्ट प्राप्त करना तथा SLTC/आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाह्य विशेषज्ञों के द्वारा कार्यों का मूल्यांकन समन्वय और सुधार करना।
- (II) राज्यस्तरीय मूल्यांकन समिति (SLAC) से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्तावों का SLSCMC के अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना एवं स्वीकृति प्राप्त करना।
- (III) केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का प्रबंधन करना।
- (IV) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, आसान ऋण अथवा अनुदान एवं ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि को विमुक्त करना।
- (V) स्वीकृत परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करना।
- (VI) मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट में उल्लेखित सुधारों/लक्ष्य प्राप्ति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

- (VII) MoHUPA को वार्षिक कार्य योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना एवं अन्य सभी आवश्यक कार्य जो योजना को गति प्रदान करने में आवश्यक हो।
- (VIII) शहरी स्थानीय निकायों एवं कार्यकारी एजेंसियों को विमुक्त निधि के अंकक्षित लेखाओं का संधारण करना।
- (IX) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन करना।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1085-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>